

प्रयागराज: पंचायत चुनावों में नकली नोट खपाने का था प्लान! 6 लाख की जाली करेंसी संग 2 अरेस्ट

Vaibhava Pandey | LipiUpdated: 02 Nov 2020, 10:11:00 PM

इस गिरोह का सरगना गोविंद है, पूरे प्रदेश में नकली नोट की खेप खपाने का काम किया करता था। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नकली नोट इस गैंग को कहां से सप्लाई हो रहे थे और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है।



प्रयागराज

उत्तर प्रदेश में अगले साल मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां चल रही हैं। इन चुनावों में नकली नोटों की बड़ी खेप खपाने की जुगाड़ में लगे एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। प्रयागराज में नवाबगंज बॉर्डर पुलिस के पास पुलिस ने इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से छह लाख रुपये से अधिक नकली नोटों के साथ एक बाइक बरामद किया है। गिरोह का सरगना फरार है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।

पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह का सरगना गोविंद है, पूरे प्रदेश में नकली नोट की खेप खपाने का काम किया करता था। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नकली नोट इस गैंग को कहां से सप्लाई हो रहे थे और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। गिरोह का सरगना गोविंद प्रतापगढ़ में बलीपुर कुंडा का रहने वाला है। उसकी तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है।

त्योहारों में भी खपाने का था प्लान

एसपी गंगा पार धवल जायसवाल ने बताया कि यह गिरोह नकली नोटों को प्रदेशभर में चलाने के साथ ही आने वाले त्योहारों में भी इनको खपाने की फिराक में था। पंचायत चुनाव में इन नोटों को खपाने संबंधी सूचना पर पुलिस छानबीन कर और तथ्य निकालने का प्रयास कर रही है। जल्द ही गैंग के सरकार को पुलिस अरेस्ट कर लेगी।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/allahabad/fake-currency-gang-busted-in-prayagraj/articleshow/79003060.cms>